

#Stopcovid-19: अपने घर में रहें - सुरक्षित रहें

=====

सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

प्रेस विज्ञप्ति संख्या:-१०३३

बुधवार, 07 अक्टूबर 2020

=====

◆ नवाचार के तहत तैयार किए जा रहे कैरियर गाइडलाइंस "जोहार पाठशाला" जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर भी होगा उपलब्ध

◆ सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देशन में तैयार किए जा रहे पाठ्य सामग्री के साथ-साथ कैरियर में सफल रहे व्यक्तियों के संघर्ष को भी वीडियो के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बीच किया जाएगा प्रस्तुत

=====

पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि *सिंहभूम(कोल्हान) प्रमंडलीय आयुक्त डॉ मनीष रंजन के मार्गदर्शन में वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोनावायरस संक्रमण के इस संकटकाल में जब सभी बच्चे अपने-अपने घरों से डिजिटल माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, वैसे सभी विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम आधारित उच्च कोटि का वीडियो प्रमंडल के तीनों जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुभवी शिक्षकों के समर्पित सहयोग से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए तैयार किया गया है एवं अभी तैयार किए गए सभी वीडियो का एडिटिंग कार्य जारी है एवं उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी वीडियो तैयार हो जाएंगे।*

उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि *झारखंड राज्य पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्ययनरत प्रमंडल सहित समस्त राज्य के बच्चे जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का अध्ययन कर रहे हैं सभी के लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम आधारित उच्च तकनीक का वीडियो उपलब्ध होगा एवं झारखंड राज्य के समस्त छात्र-छात्राएं इसका भरपूर उपयोग कर अपने कैरियर को एक नए आयाम की तरफ ले जा सकेंगे।* उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि *इसी प्रयास के तहत एक कदम आगे बढ़ाते हुए जिला/राज्य के बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस के तहत अपने-अपने कैरियर क्षेत्र के सफल व्यक्तियों के संघर्ष पर आधारित वीडियो भी पाठ्यक्रम आधारित वीडियो के साथ संलग्न किया जा रहा है। नवाचार के तहत प्रारंभ किए गए इस पाठ्यक्रम को "जोहार पाठशाला" का नाम दिया गया है एवं बहुत जल्द सबों के सामूहिक प्रयास से जन सामान्य एवं बच्चों के लिए एक बेहतर गाइडलाइंस भी तैयार किया जा रहा है।*

=====

Team PRD Chaibasa

=====

कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:

डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 100

राज्य कॉल सेंटर- 181 / (0651)2261368

=====